

8. हमारे आस-पास के बाज़ार

अध्याय-समीक्षा

- जब कोई बाज़ार प्रत्येक सप्ताह किसी विशेष दिन को निश्चित स्थान पर लगता हो तो इसे साप्ताहिक बाज़ार कहते हैं ।
- साप्ताहिक बाज़ार में आम ज़रूरत की सभी चीज़ें एक ही जगह पर सस्ती दरों में उपलब्ध होती हैं ।
- शॉपिंग कोम्प्लेक्स शहरी क्षेत्रों, महानगरों, आदि में पाए जाते हैं ।
- सामानों का निर्माण घरों, कारखानों, फार्मों, आदि में किया जाता है ।
- साप्ताहिक बाज़ार का आयोजन प्रत्येक सप्ताह एक निश्चित दिन को होता है ।
- साप्ताहिक बाज़ार में दुकान दरो की स्थायी दुकानें नहीं होती ।
- व्यापारी सारा दिन अपनी दुकान चलाते हैं तथा शाम को अपना सामान समेटकर घर वापस चले जाते हैं ।
- वे लोग, जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता है।
- व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तुएँ उपभोक्ता को बेचता है, खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है।
- उत्पादकों से वस्तुएँ सीधे बड़े शहरों के थोक व्यापारियों तक पहुँचता है, फिर यहाँ से अन्य शहरों के बड़े व्यापारियों तक पहुँचता है । इन व्यापारियों से वस्तुएँ खुदरा या फुटकर व्यापारी खरीदते हैं और उन्हें उपभोक्ताओं तक पहुँचाते हैं ।
- यह बाजारों की एक श्रृंखला है, जो परस्पर एक-दूसरे से कड़ियों की तरह जुड़ी होती है, क्योंकि उत्पाद एक बाजार से होते हुए दूसरे बाजार में पहुँचते हैं।
- ब्रांडेड वस्तुएँ वे होती हैं जिन्हें कंपनियाँ बड़े-बड़े विज्ञापन देकर और क्वालिटी के दावे करके बेचती हैं । ब्रांडेड वस्तुएँ महँगी होती हैं ।
- कुछ शहरी इलाकों में बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें भी देखने को मिलेंगी, जिनकी अलग-अलग मंजिलों पर अलग-अलग तरह की वस्तुएँ मिलती हैं। इन्हें शॉपिंग मॉल कहा जाता है।

अभ्यास-प्रश्नावली

प्रश्न : एक फेरीवाला, किसी दुकानदार से कैसे भिन्न है ?

उत्तर - (i) एक दुकानदार के पास पक्की दुकान होती है जबकि एक फेरी वाले के पास अपना सामान बेचने के लिए कोई पक्की दुकान नहीं होती है | वह गलियों में घूम - घूम कर अपना सामान बेचता है |

(ii) एक दुकानदार के पास कई तरह के सामान अधिक मात्र में होते हैं जबकि एक फेरी वाले के पास सिमित सामान कम मात्रा में होते हैं |

(iii) दुकानदार को कई तरह के खर्चे होते हैं, जैसे बिजली का बिल आदि भरना और किराया भरना पड़ता है लेकिन फेरी वाले को किसी भी तरह का बिल नहीं भरना पड़ता है |

(iv) दुकानदार द्वारा बेची जाने वाली वस्तुएँ फेरीवाले की तुलना में महंगी होती हैं, जबकि फेरीवाला सस्ती माल खरीदकर बेचते हैं |

(v) एक दुकानदार एक ही जगह अपनी पक्की दुकान में सामान बेचता है जबकि एक फेरीवाला गलियों में घूम - घूम कर अपना सामान बेचता है |

प्रश्न : निम्नलिखित तालिका के आधार पर एक साप्ताहिक बाजार और एक शोपिंग कोम्प्लेक्स की तुलना करते हुए उनका अंतर स्पष्ट कीजिए |

बाजार	बेची जाने वाली वस्तुओं के प्रकार	वस्तुओं का मूल्य	विक्रेता	ग्राहक
साप्ताहिक बाजार				
शोपिंग कोम्प्लेक्स				

उत्तर -

बाज़ार	बेची जाने वाली वस्तुओं के प्रकार	वस्तुओं का मूल्य	विक्रेता	ग्राहक
साप्ताहिक बाज़ार	राशन, कपड़े, सब्जी, बर्तन, आदि	सस्ती	छोटे व्यापारी	गाँव के लोग , आस-पास रहने वाले लोग
शोपिंग कॉम्प्लेक्स	ब्रांड वाले कपड़े , तैयार कपड़े, आइसक्रीम, बर्गर, पिज़्ज़ा, जुते, घरेलु इलेक्ट्रॉनिक सामान , आदि ।	महँगी	बड़े तथा धनी व्यापारी	धनी लोग

प्रश्न : स्पष्ट कीजिए की बाजारों की श्रृंखला कैसे बनती है | इससे किन बातों की पूर्ति होती है ?

उत्तर - (i) बाजारों की श्रृंखला थोक बाज़ार से शुरू होकर खुदरा बाजारों , जंहा सीधे ग्राहकों को सामान बेचा जाता है मिलकर बनी होती है | थोक तथा खुदरा बाजारों के बिच कई छोटे-बड़े व्यापारी कम करते है | उदहारण के लिए , एक खुदरा विक्रेता प्लास्टिक के सामान शहर के थोक विक्रेता से खरीदता है |

(ii) बाजारों की यह श्रृंखला निर्माता तथा उपभोक्ता दोनों की बातों की पूर्ति करती है | क्योंकि न तो निर्माता उपभोक्ता को थोड़ी मात्रा में सामान बेचना पसंद करेगा और ना ही उपभोक्ता निर्माता से अधिक मात्रा में सामान लेना चाहेगा | अतः इन दोनों के बिच एक श्रृंखला बनाने के लिए थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता , आदि की आवश्यकता होती है | जिससे बाजारों की एक श्रृंखला बनती है तथा दोनों के उद्देश्ये पुरे होते है |

प्रश्न: सब लोगो को बाज़ार में किसी भी दुकान पर जाने का सामान अधिकार है | क्या आपके विचार से महंगे उत्पादों की दुकानों के बारे में यह बात सत्ये है ? उदहारण देकर स्पष्ट कीजिए |

उत्तर - (i) हाँ | सभी लोगो को बाज़ार में किसी भी दुकान पर जाने का सामान अधिकार है | चाहे यह महँगे सामान बेचने वाले शोपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकान हो या सस्ती चीज़ बेचने वाले साप्ताहिक बाज़ार की दुकान, कोई व्यक्ति यह जा सकता है , सामान देख सकता है तथा यदि उसके पास पर्याप्त पैसे हो , तो खरीद भी सकता है |

(ii) उदहारण के लिए , कविता और सुजाता अंसल मोल गईं | वे एक ब्रांड वाले कपड़ों की दुकान पर गईं | वहा किसी भी कपड़े की कीमत 2000 रुपये से कम नहीं थी | यह कीमत साप्ताहिक बाज़ार में कपड़ों की कीमत में पांच गुना अधिक थी | अतः उन्होंने कपड़ा नहीं खरीदा और वापस आ गईं | उसने एक सस्ती दुकान से कपड़ा खरीदा |

प्रश्न: बाज़ार में जाये बिना भी खरीदना और बेचना हो सकता है | उदहारण देकर इस कथन की व्याख्य कीजिए |

उत्तर - (i) खरीदने और बेचने का काम बाज़ार में जाये बिना भी हो सकता है | यह कथन वर्तमान बाज़ार - व्यापार के परिदृश्य को देखते हुए बिलकुल सही है |

(ii) नई तकनीकी के आगमन ने खरीद-बिक्री के लिए बाज़ार में शारीरिक रूप से उपस्थिति की पारंपरिक अवधारणा को बदलकर रख दिया है |

(iii) आज हमें बाज़ार जाकर सामान खरीदने की आवश्यकता नहीं है | कोई भी फोन या इन्टरनेट के माध्यम से किसी भी चीज़ का ऑर्डर दे सकता है | ये चीज़ें घर या निर्दिष्ट जगह पर पहुंचा दी जाती हैं |

(iv) उदहारण के लिए,आपने डॉक्टर के यह सेल्स रेप्रिजेंटेटिव को ऑर्डर लेने के लिए आते देखा होगा

अतः यह संभव है की आप बाज़ार गए बिना सामानों की खरीद बिक्री कर सकते हैं |

अतिरिक्त प्रश्नोत्तर

प्रश्न: किसी बाज़ार को साप्ताहिक बाज़ार कब कहते हैं |

उत्तर- जब कोई बाज़ार प्रत्येक सप्ताह किसी विशेष दिन को निश्चित स्थान पर लगता हो तो इसे साप्ताहिक बाज़ार कहते हैं |

प्रश्न: साप्ताहिक बाज़ार की कोई एक विशेषता बताइए |

उत्तर- साप्ताहिक बाज़ार में आम ज़रूरत की सभी चीज़ें एक ही जगह पर सस्ती दरों में उपलब्ध होती हैं |

प्रश्न: शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहा पाए जाते हैं ?

उत्तर- शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शहरी क्षेत्रों, महानगरों,आदि में पाए जाते हैं |

प्रश्न: सामान कहा निर्मित होते हैं?

उत्तर- सामानों का निर्माण घरों , कारखानों,फर्मों,आदि में किया जाता है |

प्रश्न: साप्ताहिक बाज़ार के बारे में आप क्या जानते हैं ?

उत्तर- (i) साप्ताहिक बाज़ार का आयोजन प्रत्येक सप्ताह एक निश्चित दिन को होता है ।

(ii) साप्ताहिक बाज़ार में दुकान दरो की स्थायी दुकाने नहीं होती ।

(iii) व्यापारी सारा दिन आपनी दुकान चलाते हैं तथा शाम को अपना सामान समेटकर घर वापस चलेजाते हैं ।

प्रश्न: स्थायी दुकानों पर वे कौन-से अतिरिक्त खर्चे आते हैं जो साप्ताहिक बाज़ार के दुकानों पर नहीं आते?

उत्तर- कुछ ऐसे खर्चे हैं जो स्थायी दुकानों पर तो आते हैं किन्तु साप्ताहिक बाज़ार के दुकानों पर नहीं आते । उदाहरण के लिए -

(i) स्थायी दुकान वालो को दुकान का किराया, बिजली बिल तथा विभिन्न सरकारी शुल्क चुकाना पड़ता है ।

(ii) उन्हें अपने कर्मचारी को वेतन देना पड़ता है ।

प्रश्न: संपत कौन है और वह क्या करता है ?

उत्तर- संपत साप्ताहिक बाज़ार का एक छोटा व्यापारी है । वह शहरों के बड़े व्यापारियों से कपडे खरीदता है तथा सप्ताह-भर उन कपडो को छे अलग-अलग साप्ताहिक बाजारों में बेचता है ।

प्रश्न: मोल्स के बारे में आप क्या जानते हैं ।

उत्तर- बहुत, बड़ी, बहुमंजिली तथा वातानुकूलित इमारते जिनकी अलग-अलग मंजिलो पर दुकाने बनी होती है, मोल्स कहलाती है। इन मोल्स में ब्रांड तथा बिना ब्रांड वाली दोनों तरह के उत्पाद मिलते हैं । विज्ञापनों द्वारा इन उत्पादों की बिक्री को प्रोत्साहित किया जाता है ।

प्रश्न : व्यापारी किसे कहते हैं ?

उत्तर : वे लोग, जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता है।

प्रश्न : खुदरा या फुटकर व्यापारी किसे कहते हैं ?

उत्तर : व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तुएँ उपभोक्ता को बेचता है, खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है।

प्रश्न : उपभोक्ताओं तक वस्तुएँ कैसे पहुँचती हैं ?

उत्तर : उत्पादकों से वस्तुएँ सीधे बड़े शहरों के थोक व्यापारियों तक पहुँचता है, फिर यहाँ से अन्य शहरों के बड़े व्यापारियों तक पहुँचता है । इन व्यापारियों से वस्तुएँ खुदरा या फुटकर व्यापारी खरीदते हैं और उन्हें उपभोक्ताओं तक पहुँचाते हैं ।

प्रश्न : बाजारों की श्रृंखला से आप क्या समझते हैं ?

उत्तर : यह बाजारों की एक श्रृंखला है, जो परस्पर एक-दूसरे से कड़ियों की तरह जुड़ी होती है, क्योंकि उत्पाद एक बाजार से होते हुए दूसरे बाजार में पहुँचते हैं।

प्रश्न : ब्रांडेड सामान किसे कहते हैं ?

उत्तर : ब्रांडेड वस्तुएं वे होती हैं जिन्हें कंपनियाँ बड़े-बड़े विज्ञापन देकर और क्वालिटी के दावे करके बेचती हैं | ब्रांडेड वस्तुएँ महँगी होती है |

प्रश्न : शोपिंग मॉल क्या है ?

उत्तर : कुछ शहरी इलाकों में बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें भी देखने को मिलेंगी, जिनकी अलग-अलग मंजिलों पर अलग-अलग तरह की वस्तुएँ मिलती हैं। इन्हें शोपिंग मॉल कहा जाता है।

दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न :

प्रश्न : साप्ताहिक बाजार क्या होते हैं ?

उत्तर : साप्ताहिक बाजार वे बाजार होते हैं जो साप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है | इन बाजारों में व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर समेट लेते हैं | अगले दिन वे अपनी दुकानें किसी और जगह पर लगाते हैं |

प्रश्न : साप्ताहिक बाजारों में लोग क्यों जाते हैं ? तीन कारण बताइए |

उत्तर :

(i) साप्ताहिक बाजारों में बहुत-सी चीजें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। ऐसा इसलिए, कि जो पक्की दुकानें होती हैं, उन्हें अपनी दुकानों के कई तरह के खर्च जोड़ने होते हैं। उन्हें दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि देना पड़ता है।

(ii) इन बाजारों में खरीदारों के पास यह अवसर भी होता है कि वे मोल-तोल करके भाव कम करवा सकें |

(iii) साप्ताहिक बाजार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती हैं, जिससे उनमें आपस में प्रतियोगिता भी होती है।

प्रश्न : ब्रांडेड वस्तुएँ महँगी क्यों होती हैं ?

उत्तर :

(i) ब्रांडेड वस्तुएँ महँगे विज्ञापन देकर बेची जाती है |

(ii) ऐसी वस्तुएँ पक्की दुकानों में, शोपिंग कॉम्प्लेक्स में या मॉल में बेची जाती है जिनका रख रखाव और कर्मचारियों का खर्च अधिक होता है | इनकी दुकानों का किराया भी अधिक देना पड़ता है |

प्रश्न : उपभोक्ताओं तक वस्तुएँ कैसे पहुँचती हैं ?

उत्तर : उत्पादकों से वस्तुएँ सीधे बड़े शहरों के थोक व्यापारियों तक पहुँचता है, फिर यहाँ से अन्य शहरों के बड़े व्यापारियों तक पहुँचता है। इन व्यापारियों से वस्तुएँ खुदरा या फुटकर व्यापारी खरीदते हैं और उन्हें उपभोक्ताओं तक पहुँचाते हैं।

प्रश्न : बाजारों की शृंखला से आप क्या समझते हैं ?

उत्तर : यह बाजारों की एक शृंखला है, जो परस्पर एक-दूसरे से कड़ियों की तरह जुड़ी होती है, क्योंकि उत्पाद एक बाजार से होते हुए दूसरे बाजार में पहुँचते हैं।

प्रश्न : एक फेरीवाला, किसी दुकानदार से कैसे भिन्न है ?

उत्तर :

- (i) फेरीवाला कम पूँजी वाला दुकानदार होता है जबकि अन्य दुकानदारों के पास बड़ी पूँजी होती है।
- (ii) फेरीवाले को दुकान और बिजली का बिल नहीं चुकाना पड़ता है जबकि अन्य दुकानदारों को चुकाना पड़ता है।
- (iii) फेरीवालों के पास कम वस्तुएँ होती हैं जबकि दुकानदारों में पास बड़ी मात्रा में वस्तुएँ होती हैं।
- (iv) फेरीवालों को कर्मचारियों का खर्च नहीं उठाना पड़ता जबकि दुकानदारों को कर्मचारी भी रखने पड़ते हैं।

प्रश्न: किसी थोक विक्रेता के पुरे दिन के व्यापार को उदहारण देते हुए समझाइए।

उत्तर- (i) आफ़ताब सब्जी का थोक विक्रेता है। उसके व्यापार की शुरुआत तड़के सुबह 5 बजे से हो जाती है। जब बाज़ार में बहार से सब्जिय पहुँचती है।

(ii) वह फेसला करता है की आज उसे कौन-सी सब्जी खरीदनी है। उदहारण के लिए, आज उसने 5 कुंटल बंद गोभी तथा 10 कुंटल प्याज़ खरीदा।

(iii) इनको वह अपनी दुकान में इकट्ठा कर लेता है। सुबह 6 बजे के आस-पास वह इन्हें फेरीवाला तथा खुदरा व्यापारियों को बेचना शुरू करता है तथा रात 10 बजे तक उसका यह काम चलता रहता है। इस तरह प्रतिदिन उसका व्यापार सुबह 5 बजे शुरू होकर रात 10 बजे तक चलता रहता है।